

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 1979/फाल्गुन 17, 1900
No. 62] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 8, 1979/PHALGUNA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1979

विषय :—व्यापार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का गठन

सं 15(1)/78-ई. ए. सी.—भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय ने संकल्प
सं 15(1)/78-ई. ए. सी. दिनांक 17 फरवरी, 1978 के अधीन 15 फरवरी, 1978 से
व्यापार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया था।

उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट तीन संसद सदस्यों के नाम, जो
कि व्यापार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्य होंगे, इस प्रकार हैं :—

1. श्री नवाब सिंह चौहान

लोक सभा

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 2. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव | .. लोक सभा |
| 3. श्री राम लखन प्रसाद गुप्त | .. राज्य सभा |

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीछे के सदस्य, राष्ट्रीय के निजी सचिव तथा सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री का कार्यालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा भारत की सभी राज्य सरकारों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी. के. जुत्सी, निर्यात आयुक्त

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th March, 1979

Subject :—Central Advisory Council on Trade—constitution of

No. 15(1)/78-EAC.—Under Resolution No. 15(1)/78-EAC dated 17th February 1978, the Government of India in the then Ministry of Commerce had constituted the Central Advisory Council on Trade w.e.f. 15th February, 1978.

The names of the three Members of Parliament referred to in the Schedule annexed to the aforesaid Resolution who will be Members of the Central Advisory Council on Trade will be as under :—

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Shri Nawab Singh Chauhan | .. Lok Sabha |
| 2. Shri Gyaneshwar Prasad Yadav | .. Lok Sabha |
| 3. Shri Ram Laxhan Prasad Gupta | .. Rajya Sabha |

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Vice Chairman Members of the Council, the Private Secretary and Military Secretary to the President, the Prime Minister's Office, the Planning Commission all Ministries of the Government of India and all the State Governments in India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. K. ZUTSHI, Export Commissioner.